



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 08 मार्च, 2022/17 फाल्गुन, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

**MUNICIPAL COUNCIL JOGINDER NAGAR (PROPERTY TAXATION)
BYE-LAWS-2022**

NOTIFICATION

Dated, the 22nd September, 2021

No. MCJNR-1647-49.—Whereas, the Municipal Council, Joginder Nagar Draft (Property Taxation) Bye-Laws-2021 were published in Dainik Bhaskar and Dainik Jagran on 23-09-2021

vide Notification of even number dated 22-09-2021 for inviting public Objections & Suggestions under Section 217 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994:—

Whereas, the objections & Suggestions received within the stipulated period have been considered and decided by the Municipal Council, Joginder Nagar.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Clause (A) of Section 217 and Section 217 read with clause (d) of Section 65 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the final "Municipality Property Taxation Bye-Laws-2021" are hereby notified and published in Rajpatra H.P. extraordinary for information of General Public as follows, namely:—

MUNICIPAL COUNCIL JOGINDER NAGAR (PROPERTY TAXATION) BYE-LAWS-2022

1. Short title and Commencement.—(i) These Bye-laws may be called the Municipal Council Joginder Nagar (Property Taxation) Bye-laws, 2021.

(ii) These bye-laws shall come into force from the date of publication of its notification in the Rajpatra of Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these bye-laws unless the context otherwise require,

- (i) “Act” means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, (Act No. 13 of 1994) read with its amendments carried out *vide* H.P. Municipal (Amendment) Act, 2016 and *vide* H.P. Municipal (Amendment) Act, 2020.
- (ii) “Appellate Authority” means an authority prescribed under Section 90 of H.P. Municipal Act, 1994.
- (iii) “Assessment List” means the list of all units of the lands and buildings assessable to property tax under the provisions of H.P. Municipal Act, 1994.
- (iv) “Assessment year” means the year commencing from the first day of April to 31st of March of succeeding year.
- (v) “Bye-Laws” means the Municipality (Property Taxation) bye-laws 2021 made under the Act as notified in the official gazette.
- (vi) “Municipality” means as defined in Section 2 (24) of the Act.
- (vii) “Section” means a Sections of the Act.
- (viii) ‘Ratable Value’ as defined in Section 2 clause (33-a) of the Act and procedure prescribed under these Bye-Laws.
- (ix) “Unit” means a specific portion of the land and building in use and occupation of the owner(s) or occupier(s) including vacant land and build up portion of the building. This will not include setbacks area of building, agricultural lands and land in notified green belt as notified under the interim development plan of.....area.
- (x) “Unit area” means area of a unit in square meters.

- (xi) "Unit area tax" means property tax on unit(s) of lands & buildings which shall be charged per annum between one percent to twenty five percent as may be determined on the basis of ratable value of unit(s) of lands & buildings by the Municipality from time to time. All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

3. Assessment list what to contain.—

The Executive Officer shall keep a book to be called the "Assessment List" in which the following shall be entered in Form-A appended to these bye-laws:—

- (a) A list of all units of the lands and buildings located within the jurisdiction of Municipality Joginder Nagar, distinguishing each either by name or number and containing such particulars regarding the location or nature of each, which shall be sufficient for identification thereof.
- (b) The ratable value of each unit of the lands and buildings
- (c) The name of the person primarily liable for payment of property tax and ratable value as well as property tax demand on his/her unit of land or building.
- (d) If any such unit of a land or a building is not liable to be assessed to the property tax, the reason for such non-liability; and
- (e) Other details; if any, as the Executive Officer may from time to time think, fit.

Explanation.—(i) For the purpose of clause (b) the ratable value of the unit(s) of the land will be the ratable value of the unit(s) of the land and in the case of unit(s) of the building, the rateable value will include the ratable value of the land and the unit(s) of the building erected thereon.

(ii) For the purpose of charging property tax on a unit of land, the unit of land shall be treated as "land" till the completion plan of building is sanctioned by Municipality Joginder Nagar or by other competent authority of the State Government and such construction is put to use on the spot whichever occurs first. Accordingly, property tax shall be continued to be charged on the ratable value of the unit of land till such time treating it as "land".

4. Form of Assessment list.—The assessment list shall be kept in the form-A hereto. The Executive Officer/Secretary may order to add, omit, amend or alter any of the columns of the proforma of the assessment list as and when required.

5. Procedure where name of person primarily liable for property tax cannot be ascertained.—If the name of the person primarily liable for the payment of property tax in respect of any unit of any land or building cannot be ascertained, it shall be sufficient to designate him in the assessment list, property tax bill and in any notice which may be necessary to serve upon the said person under the Act, as "the holder" of such unit of land or building without further description.

6. Inspection of assessment list.—If assessment list has been completed, the Executive Officer/Secretary shall give public notice thereof mentioning therein the place where assessment list or copy thereof may be inspected and every person claiming to be the owner or lessee or occupier of any unit(s) of any land or building included in the assessment list and any authorized

agent of such person shall be at liberty to inspect the list and to file written objection within 30 days from the date of publication of such public notice in the local newspaper(s).

7. Register of Objections.—(1) The Executive Officer shall keep a register of objections in which all objections received under sub-section (2) of section 74 and sub-section (2) of section 76 shall be entered. The register shall contain:—

- (i) The name or number of the land or building in respect of which objection is received;
- (ii) Name of the person primarily liable for the payment of property tax;
- (iii) Name of the objector;
- (iv) The ratable value finally fixed after enquiry and investigation of the objection by the committee constituted in this behalf;
- (v) The date from which the ratable value finally fixed has to come into force; and
- (vi) Such other details as the Executive Officer may from time to time think, fit;

8. Amendment of Assessment list under the provisions of Section 76 and investigation and disposal of objections against such amendments.—(i) When any amendment is proposed to be made under the provisions of Section 76 such amendment will provisionally be made in the assessment list and the notice as required under the provision of sub-sections (1) & (3) of Section 76 shall be served on the person affected by the amendment after affording him the opportunity to file objection, if any, against the proposed amendment within 30 days from the date of receipt of such notice.

(ii) Objections shall be inquired into and investigated by the Committee constituted in this behalf under Sub Section 1 of 75 of the Act, after affording opportunity of being heard to the objector.

(iii) The assessment list shall be finally amended in accordance with the decisions made by the said committee.

(iv) If no objection is received or if the same are received but not within the time limit specified in this behalf in the notice, the assessment list shall be finally amended by confirming the provisional amendment made in the assessment list. However, for special reasons to be recorded in writing, the committee constituted in this behalf may consider objections received after the expiry of the stipulated period.

(v) Property tax on the basis of the amended assessment list shall be due from the date specified in the assessment notice or from the date as may be decided by the Committee constituted in this behalf. Provided that payment of property tax on the basis of the assessment list, as existing before such an amendment will not be withheld on the ground that some amendment is to be made in the list.

9. Payment of property taxes where to be made.—Every person who is liable to pay any of the property tax shall pay the same at the Head Office of the Municipality or at such other place(s) and time as may be specified by the Executive Officer/Secretary as the case may be. However, the payment of tax shall be made either by cash or cheque or through Bank Draft drawn in favour of the Executive Officer Municipal Council Joginder Nagar, payable at Joginder Nagar or

through RTGS in the Bank Account of Municipal Council Joginder Nagar declared for the said purpose by the Executive Officer.

10. Demand of property tax to be raised annually by issuing one single bill for one unit of a property.—(i) Demand of property tax shall be raised annually by issuing a single property tax bill on form-B annexed to these bye-laws for each unit of a property. The service of bill shall be effected by hand through special messenger and in case owner or occupier upon whom the bill is to be served is living outside the municipal limits, the bill shall be issued by post under certificate of posting or by registered/ speed post. In case the owner or occupier avoids by hand service of the bill, service of the bill shall be effected by affixing the bill in presence of two witnesses on the unit of the property to which the bill relates.

(ii) In case the owner or occupier upon whom the property tax bill has been served fails to make payment of the property tax within the due date, the property tax shall be recovered by the Executive Officer/Secretary or by the officer/official authorized by him in this behalf by initiating appropriate process under the provisions of Section 86 of the Act :

Provided that nothing herein contained shall affect the liability of such person to any increased property tax to which he may be assessed on account of the said unit of property owning to a revision of the rateable value.

(iii) The tax for the ensuring year shall be paid either in lump-sum with in 30 days at the beginning of the financial year *i.e.* up to 30th April or in two half yearly installments. The first installment to be paid by 30th April and second installment by 30th October every year.

11. Service of property tax bills and demand notices in respect of un-partitioned unit of property.—If an un-partitioned unit of a property is owned by more than one person, service of bill(s) and notice(s) of demand on any one co-owner shall be treated as service on all the owners.

12. Demand and collection registers.—(i) A register of demand & collection of property tax in form-F appended to these bye laws shall be maintained showing therein the figures of property tax demand, collection, rebate, remission adjustment, arrears, excess recoveries and such other particulars in relation to each unit of the property. This register will be kept either in the shape of hard copy or in the shape of soft copy or in both as the Executive Officer may be think fit.

(ii) The register may, if any the Executive Officer may be thinks fit be made in separate parts or volumes for such purposes and with such several designations as the Executive Officer may be determine.

(iii) The separate Register shall be maintained for recording information regarding detail of arrears for the previous years.

13. Circumstances not considered as vacancy of property.—For the purpose of Sections 81 and 84 of Himachal Pradesh Municipal, Act, 1994:—

- (i) A unit of building or of a tenement reserved by the owner for his own occupation shall be deemed to be occupied, whether it is actually occupied by the owner or not;
- (ii) Any unit of building or of a tenement used or intended to be used for the purpose of any industry which is seasonal in character shall not be deemed to be vacant merely on account of its being unoccupied and unproductive of rent during such period or periods of the year in which seasonal operations are normally suspended;

14. Remission/Refund not claimable unless notice of vacancy is given to the Executive Officer may be every year.—When a vacancy continues from one year into the subsequent year, no refund or remission of any property tax shall be claimable from the Executive Officer, as the case may be on an account of such continued vacancy unless notice thereof is given to the Executive Officer within 60 days from the commencement of the next financial year.

15. Inspection by Municipal Staff of the vacant unit of the property.—If any owner or occupier does not allow or facilitate the inspection by the authorized Municipality staff of any unit of the property claimed by him to be vacant, the Executive Officer, may be refuse to treat such unit of building or tenement, as the case may be, as vacant till the day such inspection is made, and the vacancy of the unit of property verified.

16. Copies of property tax bill(s).—The Executive Officer may be, on a request in writing from the owner of any unit of land or building or any other person primarily liable to pay property tax in respect thereof, give a copy or copies of any bill/bills for any property tax on payment of such fee as may be fixed by the Executive Officer may be, from time to time.

17. Notice on transfer of title.—The notice regarding transfer of title of any unit of any property require to be given under Section 83 shall be either in Form-“C” or Form-“D” annexed to these bye-laws, as the case may be, and shall state clearly and correctly all the particulars required in the said Form(s).

18. Property tax to be paid upto date.—No such notice as contained in Bye-Laws 17 shall be deemed to be validly given unless the property tax due upto the date of transfer of title of the unit of property is paid in full.

19. Filing of return by owner(s)/occupier(s).—The Executive Officer may be require any owner or occupier of a unit of land or building or of any portion thereof to furnish information or a written return in Form-“E” appended to these bye-laws. Every owner or occupier on whom any such requisition is made shall be bound to comply with the same and to give true information or to make a true return to the best of owner or occupier knowledge or belief, within a period of thirty days from the service of such requisition upon him/her.

20. Penalty for non-submission of return.—Whosoever omits to comply with any requisition under 19 of these bye-laws or fails to give true information or to make a true return to the best of his knowledge or belief, shall in addition to any penalty under Section 82 of the Act, be precluded from objecting to any assessment made by the Executive Officer may be in respect of such unit of the lands or building of which he is the owner or occupier.

21. Inspection of Tax Record.—Every owner, lessee or occupier of a unit of land/building or authorized agent of any such person may, with the permission in writing of the Executive Officer may be or any officer/official authorized by him in this behalf inspect the tax record relating to the unit of the land/building of which is owner, lessee, agent or occupier free of charge during the office hours.

22. Location Factor, Characteristic and its value: For the purpose of clause (33-a) (c) of Section 2 of the Act, the location Factor, characteristic and its values shall be as under.—

(i) Tentative Zoning of town proposed as follows:—

A Z:—one may include the following area

B Z:— one may include following area

C Z:—one may include the following area

D. Zone may include the following area

E. Zone may include the following area

- (ii) Number of Zones:—The entire municipal area is proposed to be divided into five zones *i.e.* zone—A, zone—B, zone—C, zone—D and zone—E. Factors and proposed value of each factor. There are five factors which are relevant for determination of ratable value of lands & buildings. These factors and proposed value of each factor per sq. meter shall be as under:—

- (1) Location factor (F-1) :

23. Structural factor/characteristics and its value.—For the clause (33-a) (c) of Section 2 of the Act, building shall be classified as pucca, semi-pucca and kucha in the following manner:—

- (i) For Pucca-building, value per sq. mtr =

- (ii) For semi-pucca building, value per sq. mtr =

- (iii) For kucha building, value per sq. mtr =

Location (Zone) No. Value per sq. mtr.

A = -----

B = -----

C = -----

D = -----

E = -----

24. Age factor and Age-wise grouping and value of the buildings.—For the clause (33-a) (c) of Section 2 of the Act, all the buildings shall be grouped age-wise having factor value as mentioned against each age group:—

| Group. | Building | Factor value. |
|--------|--------------------|---------------|
| A | Before 1970 | |
| B | Above 1971 to 1980 | |
| C | Above 1981 to 2000 | |
| D | Above 2001 to 2020 | |
| E | 2021 and beyond | |

25. Occupancy factor/characteristics and its value.—The occupancy factor and its value shall be as under for the purpose of Clause (c) *ibid*:—

(i) Value for residential occupancy:

| (a) Value for self residential | (b) Value for Let out residential |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| | |

(ii) Value per sq. mtr. for non-residential occupancy:

| A | B | C | D | E |
|--|--|---|---|--|
| Hotels above built-up area of 2000 Sq. mtr., MNC Show Rooms and Restaurant | Hotel having built-up area between 1000 to 2000 Sq. mtr. And Show Room above 1000 Sq. Mtr. | Other Hotels, Bars, Restaurant, Banks, ATMs, Show Rooms, Call Centre, Marriage Hall, Travel Agency, Mobile Towers, Coaching Centers | Shops, School, Colleges, Educational Institutions, Offices, Hostel, Hospital, Theatre, Clubs, Paying Guest House (PGs), Guest House | Gowdowns, Dhabas, Stall and Other types of Properties not covered under (A to D) |

26. Use factor/ characteristic and its value.—For the purpose of Clause (33 a) of Section 2 of the Act, the value of use factor/characteristic of the unit(s) of the lands & buildings for the purpose of Clause (33 a) *ibid* shall be as under:—

(i) Residential =

(ii) Non- Residential =

27. Method of calculation of rateable value and rate of property tax on the net rateable value of the lands and buildings shall be as under.—

| A-Zone | B-Zone |
|---------------------------------|---------------------------------|
| For residential properties | For residential properties |
| For non- residential properties | For non- residential properties |
| For land properties | For land properties |

28. Penalty.—If a person liable for payment of Property Tax does not pay the same within a period of one month from the issue of tax bill, a person shall be liable for payment of interest as per sections 86 & 87 of the Act beside initiation of recovery proceeding as per the provision of Section 89 of the Act. Further, whosoever contravenes any of the clauses of these Bye-Laws shall be, in addition to the penalties as provided under the act, liable for disconnection of water, electricity and other civic amenities and the Executive Officer, as the case may be request the competent authority to withdraw registration/recognition, if any granted, in his/their favour.

29. Repeal and Savings.—The scheme, regulation or Bye-Laws, if any hereto for relating to the mode of levy, calculation and assessment of property tax is hereby repealed. Anything done or any action taken under the said scheme, regulation or bye-laws if any shall be deemed to have been done or taken under the provisions of these bye-laws.

Sd/-
Executive Officer,
Municipal Council,
Joginder Nagar.

| Municipal Council Joginder Nagar | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| TAX DEPARTMENT ASSESSMENT LIST (See Bye Laws-4) FORM –A | | | | |
| UPN-No. _____ I.D. No. _____ ZONE _____ | | | | |
| Unit | Area | Net Ratable Value | Property Tax Percentage | Amount of General Tax |
| Residential | | | | |
| Let Out Residential | | | | |
| Commercial | | | | |
| Plot of Land | | | | |

| DATE OF ASSESSMENT | | | | |
|--------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------|
| Sl. No. | Name of Property | Name of Owner | Name of Tenant or Occupier | Remarks |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Form-B
Municipal Council Joginder Nagar
(Tax Department)
(See Bye-Laws-10)

Property Tax Bill

Financial Year for the Year _____ Bill No. _____ Dated _____
Zone _____ Bill(s) Detail

| | |
|--|-------|
| UPN No. | _____ |
| ID No. | _____ |
| Name of Property | _____ |
| Name of Owner/Occupier | _____ |
| Correspondence Address | _____ |
| Due date 15 days from the date of Receipt of bill/18 days if by post from the date of dispatch of bill | |

| Unit | Area | Net Ratable Value | Property Tax Percentage | Amount of General Tax |
|---------------------|------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Residential | | | | |
| Let Out Residential | | | | |
| Commercial | | | | |
| Plot of Land | | | | |

Detail of demand for Property Tax for the year _____ Period _____

| Sl. No. | Description of Tax | Amount |
|---------|---|--------|
| 1. | General Tax | |
| 2. | (a) Rebate @ 10% (b) Remission | |
| 3. | Previous Arrear Amount for the period _____ | |
| 4. | Interest Amount | |
| 5. | Previous Credit | |
| 6. | Amount Payable on due date | |
| 7. | Amount Payable after due date | |
| 8. | Amount still at credit | |

Please pay bill before due date to avail 10% rebate.

Bill Prepared By
Superintendent

Bill Checked By

Assistant

Tax

Receipt

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| UPN No. _____ | Bill No. _____ Bill Date _____ |
| ID No. _____ | Amount before due date _____ |
| Name of Owner/Occupier _____ | Amount after due date _____ |
| | Amount Paid _____ |
| | Receipt No. _____ Dated _____ |

Cashier, Municipal Council Joginder Nagar.

Terms & Conditions

1. The Municipality Treasury is open from 10.00 AM to 02.00 PM on all working days
2. Cheques should be drawn in favour of Executive Officer, as the case may be, Municipal Council, Joginder Nagar.
3. Out stations cheques should be include the discount charged in such cheque(s)
4. Rebate @ 10% is given on the taxes claimed for the current year or a bill raised for the first time, if the amount specified in the bill is paid within 15 days from the presentation thereof. Bills send under postal certificate shall be construed to have been received within three days from the date the posting and accordingly this rebate is given if payment of the bill is made within 18 days from the date of posting.
5. If the payment of the tax is not made within the financial years in which the bill is issued an interest @ 1% per month shall be payable after one month of the close of the financial year to which the bill relates.

6. The notice of demand/recovery of property tax will not confer any right on the person paying the tax or anyone else to claim validation of unauthorized construction at a later date and the same is without any prejudice to the rights of the Joginder Nagar Municipality to take any legal action including that of demolition in respect of such unauthorized construction/structure.
7. In case any of your payments have not been adjusted, same can be adjusted/settled by producing original receipts given by Municipality-Joginder Nagar.
8. In all correspondence, always mention No./date, name of house and demand No.
9. Bill generated be presented while tendering payment.

Form-C**(SEE BYE-LAW-17)****Form of notice of Transfer to be given which has taken place by way of instrument**

To

The Executive Officer,
Municipal Council, Joginder Nagar.

I _____ s/o _____ r/o _____ hereby
give notice as required by Section 83 of the H.P. Municipal Act, 1994 of the following transfer of
property:—

Description of Property

| Name & address of person whose title has been transferred | Name & address of person to whom property title has been transferred | Detail of Property | Area of the property | Account No./ID No. of old assesses | Remarks |
|---|--|--------------------|----------------------|------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Date _____

Name of Owner/Occupier _____

Address _____

Mob.No. _____

Form-D**(SEE BYE-LAW-17)****Form of notice of Transfer to be given which has taken place otherwise than by instrument.**

To

The Executive Officer,
Municipal Council, Joginder Nagar.

I _____ s/o _____ r/o _____ hereby
give notice as required by section 83 of the H.P. Municipal Act, 1994 of the following transfer of
property:—

Description of Property

| Name & address of person whose title has been transferred | Name of legal heir/successor to whom property title has been transferred | Detail of Property | Area of the property | Account No./ID No. of old assesses | Remarks |
|---|---|-----------------------|-------------------------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Date _____

Name of Owner/Occupier _____

Address _____

Mob.No. _____

FORM-E

**(Tax liability Form under Section 82 read with Section 86 of the Himachal Pradesh
Municipal Act, 1994) (See Bye-Law-19)**

To

The Executive Officer,
Municipal Council, Joginder Nagar.

Subject:— Filling of return for assessment of properties for Municipal Taxes.

Sir/Madam,

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | House (PGs), Guest House. | | | | | | | | | | |
| | (e) Godowns, Dhaba, Stall and Other Types of Properties not covered Under (a to d) | | | | | | | | | | |
| 3. | Plot of Land | | | | | | | | | | |

I hereby declare that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and proper belief and nothing has been concealed there from.

Date

Yours faithfully,

(Signature)

Owner/Agent/Occupier.

Name in block letters _____
Address _____
Mob. No. _____

Verification of the
Assistant Tax Superintendent
Location factor/characteristic and its value

Verification of the
Executive Officer,

(i) Number of zones:—The entire old and merged Municipal area has been divided *i.e.* A & B Zone.

(I) Location factor (F-1) is same for both the Zones.

Structural factor, Characteristics and its values (F2):—

(i) For Pucca-building value per Sq. Mtr. =

(ii) For semi-pucca building, value per sq. mtr =

(iii) For kutch building, value per sq. mtr =

Age factor and Age-wise grouping and value of the Buildings (F3):—

| Group | | Factor Value |
|-------|-----------------|--------------|
| A | Before 1970 | |
| B | 1971 to 1980 | |
| C | 1981 to 2000 | |
| D | 2001 to 2020 | |
| E | 2021 and beyond | |

Occupancy factor/Characteristics and its value (F4):—

(i) Value for residential occupancy:

| (a) Value for self residential | (b) Value for Let out residential |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| | |

(ii) Value per sq. mtr. for non-residential Occupancy.

| A | B | C | D | E |
|---|---|--|---|--|
| Hotel above built up area of 2000 sq.m., MNC Show Rooms and Restaurants | Hotel having built up area between 1000 to 2000 sq.m. and show room above 1000 sq. m. | Other Hotels, Bars, Restaurant, Banks, ATMs, Show rooms, Call Centre, Marriage Hall, Travel Agency, Mobile Towers, Coaching Centre | Shops, Schools, Colleges, Education institutions, Offices, Hostel, Hospital, Theatre, Clubs, Paying Guest House (PGs), Guest House. | Godowns, Dhaba, Stall and Other Types of Properties not covered Under (A to D) |
| | | | | |

Use factor/Characteristics and its value (F5):—

The value of Use factor /characteristics of the unit(s) of the lands & buildings for the purpose of Clause (c) *ibid* shall be as under:-

(i) Residential =

(ii) Non Residential =

Method for calculation of Ratable Value and Rate of property tax on the Ratable Value of the unit of lands and Buildings:—

Area (in sq. mtrs) of a unit multiplied by value of relevant factors of unit area method as mentioned in 23 to 27 of the bye laws. The figure that will so come out, thereof shall be the net ratable value of unit and property tax shall be charged on that net ratable value at the rate of ___% in zone A and ___% in zone B for lands and in case of buildings as under:—

| A-zone | B-zone |
|--|--|
| For self occupied residential properties measuring 1 sq.mtr. to 100 sq. mtrs. @ ___% P.A. on the RV. (Rate able Value). | For self occupied residential properties measuring 1 sq.mtr. to 100 sq. mtrs. @ ___% P.A. on the RV. (Rate able Value). |
| (ii) For self occupied residential properties. Measuring 101 sq. mtrs. to above @ ___% P.A. on the RV. (Rate able Value) | (ii) For self occupied residential properties. Measuring 101 sq. mtrs. to above @ ___% P.A. on the RV. (Rate able Value) |
| (iii) For non-residential properties @ ___% P.A. on the ratable value. | (iii) For non-residential properties @ ___% P.A. on the ratable value. |

(See Bye-Laws-12)

For the Financial Year _____

UNP No. _____

ID No. _____

Name of Property: _____

Name of Owner/Occupier: _____

Correspondence Address: _____

| Unit | Area | Net Ratable Value | Property Tax Percentage | Amount of General Tax |
|---------------------|------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Residential | | | | |
| Let Out Residential | | | | |
| Commercial | | | | |
| Plot of Land | | | | |

[illegible]

कार्यालय उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

दिनांक, 24 जनवरी, 2022

संख्या: पीसीएच-कुल्लू-76(परिसम्पत्ति विभाजन/2021)-217-226.—यह है कि वर्ष 2020 में जिला कुल्लू के विकास खण्ड बन्जार की 3 ग्राम पंचायतों के द्विशाखन/विभाजन/पुनर्गठन उपरान्त 3 नई पंचायतों का सृजन हुआ है। विभाजन उपरान्त इन पंचायतों के मध्य आस्तियां/दायित्व (चल व अचल सम्पत्ति) का वितरण खण्ड विकास अधिकारी, बन्जार द्वारा प्रेषित प्रस्तावनाओं की अनुशंसा के अनुसार किया जाना है।

अतः मैं, आशुतोष गर्ग, भा0प्र0से0, उपायुक्त, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 200 (4) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कुल्लू के विकास खण्ड बन्जार की नवगठित/विभाजित ग्राम पंचायतों के मध्य जंगम व स्थावर (चल/अचल) परिसम्पत्तियों के विभाजन को निम्न प्रपत्र अनुसार अधिसूचित करता हूँ।

ग्राम पंचायत नौहाण्डा/पेखडी

| क्र० सं० | विकास खण्ड का नाम | पुनर्गठित विभाजित ग्राम सभा का नाम | नवगठित ग्राम सभा का नाम | चल सम्पत्ति का ब्यौरा | | अचल सम्पत्ति का ब्यौरा | | नई पंचायतों को हस्तांतरित सम्पत्ति | | पुरानी पंचायतों के लिए सम्पत्ति | | विवरण |
|----------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--|------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----|--------------------------|
| | | | | | | | | चल | अचल | चल | अचल | |
| 1. | बन्जार | नौहाण्डा | पेखडी | मेज बड़े =2 | | पंचायत सामुदायिक केन्द्र | | 1 | | 1 | | पंचायत सामुदायिक केन्द्र |
| 2. | | | | कुर्सियां प्लास्टिक | | ग्राम सेवक हट | | 11 | ग्राम सेवक हट | 14 | | |
| 3. | | | | कुर्सियां काली | | | | | 4 | 4 | | |
| 4. | | | | कुर्सियां लाल | | | | | 2 | 3 | | |
| 5. | | | | सोफा सेट 1 | | | | सोफा सेट 1 | | | | |
| 6. | | | | अलमारी | | अलमारी | | अलमारी | | अलमारी | | |
| 7. | | | | गोदरेज = 4 | | गोदरेज =1 | | गोदरेज =1 | | गोदरेज =3 | | |
| 8. | | | | हीटर = 4 | | हीटर =2 | | हीटर =2 | | हीटर =2 | | |
| 9. | | | | कम्प्यूटर = 1 | | | | | | कम्प्यूटर =1 | | |
| 10. | | | | लेपटाप=1 | | | | | | लेपटाप=1 | | |
| 11. | | | | प्रिन्टर=1 | | | | | | प्रिन्टर=1 | | |
| 12. | | | | दरी 1 | | | | | | दरी 1 | | |
| | | | | समा निधि 200000 | | 120000 | | | | 80000 | | |

ग्राम पंचायत खाडागाड/सजवाड

| क्र० सं० | विकास खण्ड का नाम | पुनर्गठित विभाजित ग्राम सभा का नाम | नवगठित ग्राम सभा का नाम | चल सम्पत्ति का ब्यौरा | | अचल सम्पत्ति का ब्यौरा (पंचायत की भूमि) खसरा नं० | नई पंचायत को हस्तांतरित सम्पत्ति | | | पुरानी पंचायत के लिए सम्पत्ति | | | | |
|----------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--|----------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | | | | चल | | अचल (पंचायत की भूमि) खसरा नं० | चल | | अचल (पंचायत की भूमि) खसरा नं० | | |
| 1. | बन्जार | खाड़ागाड़ | सजवाड़ | ऑफिस टेबल | 6 | 901 / 849 = 00-04-00 | ऑफिस टेबल | 3 | 445 = 00-09-00 | ऑफिस टेबल | 3 | 901 / 849= 00-04-00 | | |
| 2. | | | | | स्टील अलमारी | 3 | 445 = 00-09-00 | स्टील अलमारी | 1 | 1274 = 01-01-00 | स्टील अलमारी | 2 | | |
| 3. | | | | | कुर्सी प्लास्टिक | 30 | 1274 = 01-01-00 | कुर्सी प्लास्टिक | 15 | | कुर्सी प्लास्टिक | 15 | | |
| 4. | | | | | ऑफिस कुर्सी | 6 | | ऑफिस कुर्सी | 3 | | ऑफिस कुर्सी | 3 | | |
| 5. | | | | | ऑफिस कुर्सी | 2 | | ऑफिस कुर्सी | 1 | | ऑफिस कुर्सी | 1 | | |
| 6. | | | | | ऑफिस कुर्सी | 30 | | ऑफिस कुर्सी | 15 | | ऑफिस कर्सी | 15 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|------------------|---|--|-----------|---|--|----------------|---|--|--|
| 7. | | | | रिवालविंग | 5 | | रिवालविंग | 2 | | रिवालविंग | 3 | | |
| | | | | कुर्सी | | | कुर्सी | | | कुर्सी | | | |
| 8. | | | | हीटर | 3 | | हीटर | 1 | | हीटर | 2 | | |
| 9. | | | | दरी | 1 | | दरी | 1 | | | | | |
| 10. | | | | टेबल कलाथ | 2 | | टेबल कलाथ | 1 | | टेबल कलाथ | 1 | | |
| 11. | | | | लेपटाप | 1 | | | | | लेपटाप | 1 | | |
| 12. | | | | प्रिंटर | 2 | | प्रिंटर | 1 | | प्रिंटर | 1 | | |
| 13. | | | | कम्प्यूटर टेबल | 1 | | | | | कम्प्यूटर टेबल | 1 | | |
| 14. | | | | राष्ट्रीय ध्वज | 1 | | | | | राष्ट्रीय ध्वज | 1 | | |
| 15. | | | | कम्प्यूटर | 1 | | | | | कम्प्यूटर | 1 | | |
| | | | | समा निधि 1109250 | | | 469365 | | | 639885 | | | |

ग्राम पंचायत पलहाच/जमद

| क्र.सं० | विकास खण्ड का नाम | पुनर्गठित विभाजित ग्राम सभा का नाम | नवगठित ग्राम सभा का नाम | चल सम्पत्ति का ब्यौरा | अचल सम्पत्ति का ब्यौरा | नई ग्राम पंचायत का हस्तांतरित सम्पत्ति | | पुरानी पंचायत के लिए सम्पत्ति | | विवरण |
|---------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------|-------|
| | | | | | | चल | अचल | चल | अचल | |
| 1. | बन्जार | पलाहच | जमद | अलमारी नई 3 | पंचायत सामुदायिक केन्द्र भवन | 1 | नई ग्राम पंचायत | 2 | | |
| 2. | | | | अलमारी पुरानी 2 | पंचायत दुकानें 3 | | 3 दुकानें | 2 | | |
| 3. | | | | कुर्सी प्लास्टिक 56 | पंचायत बगीचा पोखरी | 28 | | 28 | बगीचा पोखरी | |
| 4. | | | | कुर्सियां स्टील बाजू 45 | | 22 | | 23 | | |
| 5. | | | | रिवालविंग कुर्सियां 4 | | 2 | | 2 | | |
| 6. | | | | कुर्सियां फैंसी 7 | | 3 | | 4 | | |
| 7. | | | | सोफा 1 सेट | | 1 | | | | |
| 8. | | | | कार्फैस टेबल 1 | | 1 | | | | |
| 9. | | | | टेबल 4 | | 2 | | 2 | | |
| 10. | | | | कम्प्यूटर टेबल 1 | | 1 | | — | | |
| 11. | | | | डोली 1 | | 1 | | | | |
| 12. | | | | माईक 1 | | | | 1 | | |
| 13. | | | | हीटर 3 | | 1 | | 2 | | |
| 14. | | | | लेपटाप 1 | | | | 1 | | |
| 15. | | | | कम्प्यूटर 1 | | 1 | | | | |
| 16. | | | | प्रिंटर 2 | | 1 | | 1 | | |
| 17. | | | | राष्ट्रीय ध्वज 1 | | 1 | | | | |
| | | | | निधि 395138 | | 205380 | | 189758 | | |
| | | | | 15 वां वित्तायोग Tide grant - 340756 | | 170758 | | 170758 | | |
| | | | | Untide Grant - 340756 | | 170758 | | 170758 | | |
| | | | | विकास कार्यों का विवरण | | | | | | |
| | | | | पुनः निर्माण पक्का रास्ता विष्टेहड से था स्वीकृत राशि 60000, प्रथम किस्त प्राप्त 25000 इसके अन्तर्गत मु० 7000 रु० व्यय हो चुका है तथा शेष राशि 18000 रु० ग्राम पंचायत जमद के लिए स्थानांतरित की जाती है। | | | 18000 | | | |

हस्ताक्षरित/—
(आशुतोष गर्ग) भा०प्र०से०,
उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 05th March, 2022

No. HFW-B(A)4-2/2022.—In partial modification to this notification No. HFW-B(A)3-3/06-loose dated 6th may, 2008, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to reconstitute

Admission and Fee Committee in respect of Private Medical/Dental Colleges in Himachal Pradesh, consisting of following:—

- | | |
|--|--------------------|
| 1. ACS/Principal/Secretary (Health) to the Govt. of H.P. | . Chairman |
| 2. Vice-Chancellor of H.P. University or his nominee (Eminent Educationist). | . Member |
| 3. Director Medical Education, H.P., Shimla | . Member |
| 4. The Principal, IGMCI, Shimla | . Member |
| 5. The Principal, H.P. Govt. Dental College, Shimla | . Member |
| 6. Chartered Accountant to be nominated by the State Government. | |
| 7. Registrar of H.P. Medical/Dental Council | . Member |
| 8. The Deputy Controller (F&A), Medical Education, H.P. | . Member |
| 9. Addl./Joint Director, Medical Education, H.P. | . Member-Secretary |

The terms & conditions shall remain unchanged.

By order,
AMITABH AWASTHI,
Secretary (Health).

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 7th March, 2022

No. LLR-E(9)-2/2018-Leg.—Whereas, the following Advocates of District Shimla H.P. have applied for appointment of Notary in the places and areas mentioned against their names under rule 4 of the Notaries Rules, 1956:—

| Sl. No. | Name of Advocate | Area for which they have applied for appointment of Notary |
|---------|---|--|
| 1. | Shri Narender Singh Verma, Advocate, s/o Sh. Lekh Ram Verma, r/o Village Obru, P.O. Halog (Dhami), Sub-Tehsil Dhami, Tehsil & District Shimla, (H.P.)-171103. | Sub-Division Shimla (Urban) |
| 2. | Shri Manish Sirkek, Advocate, s/o Sh. Satish Sirkek, r/o Shanno Niwas, Dyerton Estate, Below Toland, Shimla (H.P.)-171001. | Sub-Division Shimla (Urban) |

Therefore, I undersigned in exercise of the powers conferred *vide* Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg., dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in Rajpatra (e-Gazette), H.P. against their appointments as Notary in the places mentioned against their names.

Sd/-
(Competent Authority),
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English).

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री सोभिया राम, निवासी गांव किला, डाकघर भराडी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री समायरा की जन्म तिथि 14-07-2021 है, जो कि ग्राम पंचायत गड़ाना के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री समायरा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गड़ाना के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 11-03-2022 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 09-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(ज्ञान चन्द),
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Himanshu Vardhan s/o Sh. Jai Raj, resident of Mohalla Dharog Chamba, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H. P.).

and

Meena Kumari d/o Sh. Tilak Raj, resident of Village Chabad, P.O. Thakri Matti, Tehsil Salooni, Distt. Chamba (H.P.).

Versus

The General Public

Subject.— Notice regarding registration of Marriage under section 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954.

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 07-05-2020 at their place of residences and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now, therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 12-03-2022. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 9th Day of February, 2022.

Seal.

Sd/-
(NAVEEN TANWAR, IAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Rahul Kumar s/o Sh. Kamal Kumar, resident of Village Bhagot, P.O. Sultanpur, Tehsil & District Chamba (H. P.).

and

Vilaasu d/o Sh. Subaran, resident of Village Chhchdiot, P.O. Nakror, Tehsil Churah, District Chamba (H.P.)

Versus

The General Public

Subject.— Notice regarding registration of Marriage under section 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954.

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 01-09-2020 at their place of residences and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now, therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 12-03-2022. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 9th Day of February, 2022

Sd/-
(NAVEEN TANWAR, IAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).

**ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री आकाश कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार, गांव व डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कन्दला, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 633/2022, दिनांक 08-02-2022 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2021/22682, दिनांक 18-06-2021, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) बाल सुरक्षा कार्ड, (7) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह जिसमें आवेदक श्री आकाश कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार, गांव व डाकघर कन्दला, ग्राम पंचायत कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के बेटे कार्तिक पुत्र श्री आकाश कुमार की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के बेटे कार्तिक पुत्र श्री आकाश कुमार का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 18-06-2021 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कार्तिक पुत्र श्री आकाश कुमार, गांव व डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 22-02-2020 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के बेटे कार्तिक पुत्र श्री आकाश कुमार, गांव व डाकघर कन्दला की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, कन्दला को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 11-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

| | | | |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| केस नं0 | किस्म मुकद्दमा जन्म पंजीकरण | तारीख दायर 05-01-2022 | फैसला 14-03-2022 |
| मीना कुमारी | | बनाम | आम जनता |

प्रार्थना-पत्र.— जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 प्रार्थिया मीना कुमारी पुत्री श्री औंकार चन्द, वासी महाल वण्डा, मौजा तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) बाबत दिए

जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया मीना कुमारी पुत्री श्री औंकार चन्द, वासी महाल वण्डा, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 28-05-1969 को महाल रक्कड़ में हुआ है लेकिन अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत रक्कड़ के रिकार्ड में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका अब पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएं। अतः ग्राम पंचायत रक्कड़ को प्रार्थिया मीना कुमारी पुत्री श्री औंकार चन्द, वासी महाल वण्डा का जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित हों। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थिया, सी0एम0ओ0 कार्यालय धर्मशाला का प्रमाण-पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों व हितबद्ध को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 14-03-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायलय में असातन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 10-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 97/ई0एम0/2022

तारीख पेशी : 15-03-2022

वरिंदेर कुमार व अन्य

बनाम

आम जनता

प्रार्थीगन श्री वरिंदेर कुमार पुत्र श्री प्रभात चंद, गांव व डाकघर चनौर, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) और रवीना कोशिक पत्नी श्री वरिंदेर कुमार पुत्र श्री प्रभात चंद, गांव व डाकघर चनौर, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 10-06-2021 हिन्दु रिति-रिवाज के साथ हुई है लेकिन अज्ञानतावश अपनी शादी को ग्राम पंचायत चनौर, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है। प्रार्थीगण अपने विवाह की तिथि को पंजीकृत करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त शादी को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असातन या वकालतन दिनांक 15-03-2022 को

प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

किस्म मुकद्दमा.— बाबत दुरुस्ती इन्द्राज खाना काशत में किरायेदार हटाये जाने बारे।

तुषार मैहरा पुत्र श्री राजान मैहरा, निवासी कचहरी अड्डा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती इन्द्राज व खाना काशत बाबत भूमि खाता नं0 359, मिन खतौनी नं0 495, खसरा नं0 1206, रकबा तादादी 10—50 वर्ग मी0, महाल सिविल स्टेशन, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

श्री तुषार मैहरा पुत्र श्री राजान मैहरा, निवासी कचहरी अड्डा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें अनुरोध किया है कि हमारी मलकीयती भूमि खाता नं0 359, मिन खतौनी नं0 494, 495 व खसरा नं0 1206 में हमारी दुकान है, जिसे मेरे पिताजी ने भूबनेश्वर कुमार व रजिन्दर पुत्र रामकृष्ण को किराया पर दिया था, परन्तु अब विवाद ग्रस्त भूमि हमारे ही कब्जा में है तथा जिसकी दुरुस्ती की जानी वाजिब है। जिसके उपरान्त मिसल इन्द्राज व खाना काशत में दुरुस्ती करवाने को हल्का कानूनगो द्वितीय को इस कार्यालय के पत्र संख्या 634, रीडर-2, दिनांक 13-07-2021 बाबत छानबीन हेतु भेजा गया। बाद छानबीन हल्का कानूनगो द्वारा अपनी विस्तृत रिपोर्ट 561/क्षे0 का0 दिनांक 11-08-2021 को इस कार्यालय में प्रेषित की, मुताबिक रिपोर्ट हल्का कानूनगो के अनुसार वादग्रस्त भूमि खाता नं0 1206, रकबा तादादी 10—50 वर्ग मी0 किस्म गैरमुमकिन दुकान जो कि मौका पर खाली है तथा मौका पर तुषार मैहरा आदि मालकान का ही कब्जा है व प्रार्थीगण द्वारा एक राजीनामा भी संलग्न प्रार्थना—पत्र के साथ किया है जिसमें दुकान किराएदार द्वारा मालिक के पक्ष में खाली कर दी गई है। प्रार्थी तुषार मैहरा, अर्चित कुमार पुत्र व श्रीमती आरती देवी पत्नी स्व0 श्री राजन मैहरा मालकान इस विवादग्रस्त भूमि की खानाकाशत में दुरुस्ती करवाना चाहते हैं।

अतः इस इस्तहार राजपत्र (इन्द्राज खाना काशत) के माध्यम से आम जनता व हितबद्ध पक्षों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त दुरुस्ती बारे किसी किस्म कि आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 17-03-2022 को असालतन या बकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 17-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 :

तारीख पेशी : 28-03-2022

राजिन्दर सिंह

बनाम

सुरिंदर कुमार आदि

विषय.—प्रार्थना-पत्र भूमि विभाजन खाता नं0 57, खतौनी नं0 86, खसरा नं0 1159, कित्ता 1, रकबा तादादी 0-36-21 है0, वाकया महाल व मौजा घगवाँ, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुताबिक जमाबंदी साल 2012-13.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र भूमि तकसीम अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में लम्बित है जिसमें प्रतिवादीगणों 1. सुरिंदर कुमार पुत्र गंगा विशन पुत्र लच्छमण दास बासी घगवाँ, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) स्थायी निवासी रियाली, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0), 2. श्रीमती रुक्मणी पत्नी तरलोक चन्द वर्मा पुत्र सोहन सिंह, वासी घगवाँ, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0), 3. श्रीमती बिटो देवी पत्नी मस्त राम पुत्र सोहन सिंह, वासी घगवाँ, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) की समन जारी किए लेकिन उनकी सही ढंग से तामील न हो रही है और न ही तामील होने के बाद भी वह पेश न हुए और अधोहस्ताक्षरी न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा उक्त प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें की पैरवी करने के लिए वे असालतन या वकालतन दिनांक 28-03-2022 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर हों। गैरहाजिर रहने की सूरत में उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 :

तारीख पेशी : 28-03-2022

राजिन्दर सिंह

बनाम

राजेश कुमार आदि।

विषय.—प्रार्थना-पत्र भूमि विभाजन खाता नं0 56, खतौनी नं0 85, खसरा नं0 1152, 1154 कित्ता-2, रकबा तादादी 0-60-06 है0, वाकया महाल व मौजा घगवाँ, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुताबिक जमाबंदी साल 2012-13.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र भूमि तकसीम अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में लम्बित है जिसमें प्रतिवादीगणों 1. राजेश कुमार पुत्र राज कुमार पुत्र गंगा विशन, 2. श्री कर्ण कुमार पुत्र राज कुमार पुत्र गंगा विशन, 3. श्री कुनाल पुत्र विजय कुमार पुत्र गंगा विशन सभी वासीगण घगवाँ, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) स्थायी निवासी रियाली, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के समन जारी किए लेकिन उनकी सही ढंग से तामील न हुई और न ही तामील होने के बाद भी वह पेश न हुए और अधोहस्ताक्षरी न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा उक्त प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें की पैरवी करने के लिए वे असालतन या वकालतन दिनांक 28-03-2022 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर हों। गैरहाजिर रहने की सूरत में उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 :

तारीख पेशी : 28-03-2022

राजिन्दर सिंह

बनाम

श्रीमती रुक्मणी आदि।

विषय.—प्रार्थना-पत्र भूमि विभाजन खाता नं0 133, खतौनी नं0 195, खसरा नं0 1158, 1167, 1193, 1194, 1197, कित्ता-5, रकबा तादादी 0-29-90 है0, वाकया महाल व मौजा घगवाँ, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुताबिक जमाबंदी साल 2012-13.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र भूमि तकसीम अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में लम्बित है जिसमें प्रतिवादीगणों 1. श्रीमती रुक्मणी पत्नी तरलोक चन्द वर्मा पुत्र सोहन सिंह वासी घगवाँ, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0), 2. श्रीमती बिटो देवी पत्नी मस्त राम पुत्र सोहन सिंह, वासी घगवाँ, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0), 3. श्री प्रेम चन्द पुत्र प्रकाश पुत्र पिहंजू, वासी मलकाना, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0), 4. श्री लेख राज पुत्र प्रकाश पुत्र पिहंजू, वासी मलकाना, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0), 5. मनोहर लाल पुत्र प्रकाश पुत्र पिहंजू, वासी मलकाना, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0), 6. चरणजीत सिंह पुत्र कुमारी निर्मला पुत्री प्रकाश पत्नी श्री पृथी सिंह, हाल वासी गांव रजबाल, तहसील मुकेरियां, जिला होशियारपुर, पंजाब, 7. वीना देवी पुत्री कुमारी निर्मला पुत्री प्रकाश पत्नी श्री पृथी सिंह, हाल वासी गांव रजबाल, तहसील मुकेरियां, जिला होशियारपुर, पंजाब, 8. कुमारी कमली पुत्री प्रकाश पुत्र पिहंजू, वासी मलकाना, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0), 9. श्रीमती हंसो देवी पत्नी श्री प्रकाश पुत्र पिहंजू, वासी मलकाना, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) को समन जारी किए लेकिन उनकी सही ढंग से तामील न हुई और न ही तामील होने के बाद भी वह पेश न हुए और अधोहस्ताक्षरी न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा उक्त प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें की पैरवी करने के लिए वे असालतन या वकालतन दिनांक 28-03-2022 को प्रातः 10.00

बजे अदालत हजा में हाजिर हों। गैरहाजिर रहने की सूरत में उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राम दयाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू,
जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं० : 06/DE/NT/2022

श्री देवू राम

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, अधिनियम 1969 बारे।

श्री देवू राम सुपुत्र श्री जोगी राम, निवासी गांव पौडूशाड़, डाकघर पुईद, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय समथ पत्र प्रस्तुत किया है कि भोजू राम पुत्र जोगी राम की मृत्यु दिनांक 01-03-2020 को हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत लरांकेलो के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस इशतहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को भोजू राम की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-03-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित नगर परिषद्/ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 18-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

राम दयाल,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

पूनमा देवी उर्फ गुगली पुत्री मंगत राम, निवासी तंगूर, फाटी अर्सू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे आवेदन-पत्र।

पूनमा देवी उर्फ गुगली पुत्री मंगत राम, निवासी तंगूर, फाटी अर्सू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरा नाम प्रत्येक कागजात में पूनमा देवी दर्ज है परन्तु राजस्व विभाग के रिकार्ड फाटी अर्सू, पटवार वृत्त अर्सू में गुगली दर्ज हो गया है। जिसको मैं दुरुस्त करके पूनमा देवी उर्फ गुगली ही दर्ज करवाना चाहती हूँ।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-03-2022 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन व वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता
द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती मुरती देवी पत्नी श्री लाल दास, निवासी गांव व डाकघर धाउगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत रिकार्ड में मृत्यु दर्ज करने बारे।

श्रीमती मुरती देवी पत्नी श्री लाल दास, निवासी गांव व डाकघर धाउगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसकी माता श्रीमती रेशमू देवी पत्नी कमल दास का नाम व मृत्यु दिनांक 21-01-1975 ग्राम पंचायत धाउगी, फाटी धाउगी कोठी बूंगा में मृत्यु दर्ज नहीं है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 21-03-2022 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत धाउगी, फाटी धाउगी कोठी बूंगा में उसकी माता श्रीमती रेशमू देवी पत्नी कमल दास की मृत्यु दिनांक 21-01-1975 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 21-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज,
तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश**

श्रीमती रामा देवी पत्नी श्री राम सिंह, निवासी गांव घाट, डाकघर रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्रीमती रामा देवी पत्नी श्री राम सिंह, निवासी गांव घाट, डाकघर रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि मेरा नाम ग्राम पंचायत रैला के परिवार रजिस्टर भाग-1 में विमला देवी दर्ज है जोकि गलत है। जबकि राजस्व रिकार्ड मोहाल व कोठी शांघड़ में इसका नाम विमला देवी दर्ज है। अतः इसे दुरुस्त किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 21-03-2022 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व विभाग मोहाल व कोठी शांघड़ में इसका नाम विमला देवी के बजाए बिमला देवी उर्फ रामा देवी दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 21-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज,
तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश**

चमारू राम पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी गांव व डाकघर कनौन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—मृत्यु प्रमाण-पत्र में नाम दुरुस्ती करने बारे।

चमारू राम पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी गांव व डाकघर कनौन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि मेरी माता का नाम ग्राम पंचायत कनौन के परिवार रजिस्टर भाग-1 में लिली देवी दर्ज है जोकि गलत है। मेरे जन्म प्रमाण-पत्र व दसवीं कक्षा के अंक तालिका प्रमाण-पत्र में व अन्य दस्तावेजों में मेरी माता का नाम श्रीमती तारा देवी दर्ज है। जबकि मेरी माता के मृत्यु प्रमाण-पत्र में गलती से श्रीमती लिली देवी दर्ज हुआ है। अतः इसे दुरुस्त किया जाए।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 21-03-2022 को असातन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर श्रीमती लीली के मृत्यु प्रमाण-पत्र में श्रीमती लीली देवी के बजाए श्रीमती तारा देवी दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 21-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सैज, तहसील सैज, जिला कुल्लू।

नाम परिवर्तन

मैं, विक्रम सुपुत्र भजन सिंह, निवासी गांव कमनाड़ी, डाकघर कोरग, तहसील संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0) सूचित करता हूं कि दसवीं के प्रमाण-पत्र में मेरा नाम विक्रम सिंह है जबकि बारहवीं व अन्य प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम विक्रम दर्ज है। इसे दसवीं के प्रमाण-पत्र में भी विक्रम किया जाए।

विक्रम,

सुपुत्र भजन सिंह,

निवासी गांव कमनाड़ी, डाकघर कोरग,
तहसील संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।